

Khargone Crime News: VIDEO गुजरात में नकली नोट छापकर MP में खपाने निकले दो आरोपित गिरफ्तार

कसरावद पुलिस ने जब्त किए 24 लाख रुपये के नकली नोट, आरोपी के घर से नकली नोट छापने के उपकरण जब्त।

Updated: | Thu, 04 Nov 2021 07:23 AM (IST)



Khargone Crime News: खरगोन। नईदुनिया प्रतिनिधि। जिले में बुधवार को पुलिस ने नकली नोट के मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने गुजरात निवासी दो आरोपितों से 24 लाख रुपये के नकली नोट जब्त किए। आरोपितों ने दो हजार रुपये के नकली नोट बनाकर मद्र के इंदौर और अन्य शहरों में खपाने की तैयारी की थी।

कसरावद पुलिस को सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। एसपी चौधरी ने बताया कि 31 अक्टूबर को कसरावद थाना प्रभारी वरुण तिवारी को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि दो लोग सफेद कार में कसरावद तरफ आ रहे हैं। जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हरसिद्ध कालोनी के सामने वाहन चेकिंग लगाई गई।

कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार एक सफेद रंग की कार रोक कर चेक करते कार में दो व्यक्ति बैठे थे। जिनसे उनका नाम पूछते वाहन चालक ने स्वयं का नाम अजहर पिता रसूल मियां (30) और चालक के पास आगे बैठे व्यक्ति ने स्वयं का नाम मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद उमर पनागर (49) दोनों निवासी तादलजा बस स्टैण्ड के सामने तादलजा थाना जेपी रोड बड़ोदरा गुजरात बताया।

कपड़ा व्यापारी से मिलने का कहकर बुक करवाई थी कार

कसरावद तरफ आने का कारण पूछने पर वाहन चालक द्वारा बताया गया कि सलीम भाई द्वारा टैक्सी बुक कर कपड़े के व्यापारी से मिलने जा रहे हैं। मोहम्मद सलीम से आने का कारण पूछने पर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। सलीम से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर गाड़ी की तलाशी ली गई।

सलीम के हाथ में एक काले रंग के बैग को खोलकर देखने पर उसमें 2 दो हजार रुपये की नोटों की 12 गड्डी मिली। इनकी जांच करने पर उच्च गुणवत्ता के नकली नोट होना प्रतीत हुए। भारी मात्रा में नकली नोट मिलने पर दोनों व्यक्तियों को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर सलीम ने बताया कि वो नकली नोट बाजार में खपाने के लिए गुजरात से कसरावद तरफ आया था। साथ में लाई हुई कार के संबंध में पूछने पर किराये से टैक्सी को कपड़ा व्यापारी से मिलने का बोलकर बुक कर लेकर आना बताया।

आरोपितों को लिया रिमांड पर

थाना प्रभारी तिवारी ने बताया कि आरोपितों को 1 नवंबर को न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपित सलीम से पूछताछ करने पर उसने नकली नोट छापने के संसाधन अपने घर पर होना बताया। इस पर तत्काल पुलिस टीम बड़ोदरा गुजरात रवाना कर आरोपित की निशानदेही पर उसके घर से नकली नोट छापने के संसाधन 1 कलर प्रिंटर, 1 कटर मशीन, नकली नोट बनाने का आधा खुला पेपर पैकेट, नकली नोट बनाने के सांचे, 2000 रुपये के 6 अथ छपे नोट आदि को विधिवत जब्त किया गया।

इनका कहना है

आरोपितों से बड़ी मात्रा में मिले नकली नोट का लिंक हवाला कारोबार से जुड़ी होने का अनुमान है। इस पूरे मामले में पुलिस हर स्तर पर जांच कर रही है। आरोपित सलीम 10 वीं पास है उसका साथी आठवीं पास है। यह नोट खपाने के लिए क्षेत्र से होते हुए इंदौर की ओर जा रहे थे।

- सिद्धार्थ चौधरी, एसपी, खरगोन

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/khargone-khargone-crime-news-videotwo-accused-arrested-for-printing-fake-notes-in-gujarat-and-spending-them-in-mp-7120881>